

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-17072024-255486
SG-DL-E-17072024-255486असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 2024/आषाढ 24, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 102
No. 183]	DELHI, MONDAY, JULY 15, 2024/ASHADHA 24, 1946	[N. C. T. D. No. 102

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस (1) स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 मई, 2023

सं. फा. 01/07/2016/ गृह पुलिस-1/स्था०/506-513- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं० यू०-11011/2/74-यूटीएल (i) तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (एस) के साथ पठित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 24 सितम्बर 2018 की अधिसूचना फा० सं० 01/07/2016/गृह पुलिस-1/स्था०/4903-4910 तथा दिनांक 11 जून 2019 की फा० सं० 01/07/2016/ गृह पुलिस -1/स्था०/2118-2125 द्वारा जारी इस सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निर्देश देते हैं तथा घोषणा करते हैं, कि:-

(क) नए मेट्रो स्टेशन अर्थात् नंगली, नजफगढ़ और ढांसा बस स्टैण्ड का क्षेत्र इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पुलिस स्टेशन जनकपुरी मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा; जैसाकि नीचे दी गई अनुसूची में परिभाषित किया गया है।

- (ख) द्वारका मेट्रो स्टेशन पर नई मेट्रो ग्रे लाइन कॉरिडोर का क्षेत्र इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से जनकपुरी मेट्रो पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत द्वारका मेट्रो स्टेशन के क्षेत्र में शामिल किया जायेगा; जैसाकि संलग्न अनुसूची में परिभाषित किया गया है।
- (ग) नांगलोई मेट्रो स्टेशन को इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात जनकपुरी मेट्रो पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार से हटा दिया जायेगा;
- (घ) विनोद नगर डिपो का क्षेत्र इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से यमुना डिपो मेट्रो पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा; जैसाकि संलग्न अनुसूची में परिभाषित किया गया है।
- (ङ.) प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रगति मैदान से बदलकर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा; जैसाकि नीचे दी गई अनुसूची में परिभाषित किया गया है।
- (च) प्रगति मैदान मेट्रो मेट्रो पुलिस स्टेशन का नाम इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रगति मैदान मेट्रो से बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो हो जाएगा; जैसाकि नीचे दी गई अनुसूची में परिभाषित किया गया है।

समस्त मेट्रो पुलिस स्टेशनों की सीमाएं/संशोधित सीमाएं/क्षेत्राधिकार अब से संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को कवर करेंगे:—

अनुसूची

16 मेट्रो पुलिस स्टेशनों का क्षेत्राधिकार

1. आईजीआई एयरपोर्ट मेट्रो पुलिस स्टेशन

क्र० सं०	मेट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1.	नई दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस मेट्रो स्टेशन	नई दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की भूमिगत तथा चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित है। डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरे हैं।
2.	शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन	शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, डीएमआरसी की भूमिगत तथा चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित है; संबद्ध भवन और अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरे हैं।
3.	धौला कुआँ मेट्रो स्टेशन	धौला कुआँ मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी के भीतरी तथा भू-तल क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर तथा धौला कुआँ रिसीविंग सब-स्टेशन सम्मिलित है। डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरे हैं।
4.	एरोसिटी एनएच-8 (महिपालपुर) मेट्रो स्टेशन	एरोसिटी एनएच-8 (महिपालपुर) मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की डीएमआरसी की भू-तल तथा चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित है। डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, संबद्ध भवन तथा सड़क पर मेट्रो रेल का रैंप जिसमें सीढ़ियां भी शामिल हैं (फुटपाथ को छोड़कर); तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरे हैं।
5.	आईजीआई एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन	आईजीआई एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, डीएमआरसी का भू-तल तथा चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित है; पार्किंग क्षेत्र, संबद्ध भवन, एयरपोर्ट रिसीविंग सब-स्टेशन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरे हैं।
6.	द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन	द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों के भू-तल तथा चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर शामिल हैं। डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरे हैं।
7.	द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो डिपो	डिपो में डीएमआरसी की चारदीवारी तथा बाड़ से घिरा क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें चारदीवारी के भीतर मेट्रो पटरी, मेट्रो यार्ड, कार्यालय परिसर, संपत्ति विकास क्षेत्र शामिल हैं।

[illegible]

2. राजा गार्डन मेट्रो पुलिस स्टेशन

[illegible]

10.	राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन	राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन (दोनों लाइन) का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन से मायापुरी मेट्रो स्टेशन (मायापुरी मेट्रो स्टेशन को छोड़कर) तक की पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी का भीतरी भू-तल क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर शामिल हैं। इसमें डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ का भीतरी क्षेत्र, वाणिज्यिक परिसर सहित बहुस्तरीय पार्किंग क्षेत्र, सहायक/संबद्ध भवन तथा डीएमआरसी का अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित हैं।
11.	टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन	टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें मेट्रो स्टेशन के अंतर्गत मेन नजफगढ़ रोड को छोड़कर, पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी का भीतरी भू-तल क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर शामिल हैं। इसमें डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ का भीतरी क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, सहायक/संबद्ध भवन तथा डीएमआरसी का अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित हैं।
12.	सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन	सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें मेट्रो स्टेशन के अंतर्गत मेन नजफगढ़ रोड को छोड़कर, पटरी, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से तिलक नगर मेट्रो स्टेशन (तिलक नगर मेट्रो स्टेशन को छोड़कर) तक की पटरी, सुभाष नगर रिसिविंग सब-स्टेशन, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी का भीतरी भू-तल वाणिज्यिक विकास क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर शामिल हैं। इसमें डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ का भीतरी क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, सहायक/संबद्ध भवन तथा डीएमआरसी का अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित हैं।
13.	सतगुरु राम सिंह मार्ग मेट्रो स्टेशन	सतगुरु राम सिंह मार्ग मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, सतगुरु राम सिंह मार्ग मेट्रो स्टेशन से अशोका पार्क मेन मेट्रो स्टेशन (अशोका पार्क मेन मेट्रो स्टेशन को छोड़कर) तक की पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के दोनों तरफ प्रवेश/निकास द्वार शामिल हैं, जो फुटपाथ, सर्विस रोड, मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे की मुख्य सड़क को छोड़कर, डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरा भू-क्षेत्र है।
14.	ईएसआई हॉस्पिटल मेट्रो स्टेशन	ईएसआई हॉस्पिटल मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी के भीतरी भू-तल क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर शामिल हैं। डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, डीएमआरसी के स्वामित्व/अनुरक्षित/नियंत्रण के अधीन पार्किंग क्षेत्र, सहायक/संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो मेट्रो ट्रैकों के नीचे के क्षेत्र को छोड़कर, डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरे हैं।

3. यमुना डिपो मेट्रो पुलिस स्टेशन

क्र० सं०	मेट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1.	यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन	यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य सड़क और मेट्रो स्टेशन के प्रवेश/निकास द्वार के बाहर के परिचालन क्षेत्र को छोड़कर, पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो स्टेशन भवनों की चारदीवारी का भीतरी भू-तल व भूमिगत क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर, मेट्रो पार्किंग सम्मिलित हैं।
2.	यमुना बैंक मेट्रो डिपो	डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी तथा बाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र डिपो जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य सड़क और मेट्रो स्टेशन के प्रवेश/निकास द्वार के बाहर के परिचालन क्षेत्र को छोड़कर, मेट्रो पटरी, मेट्रो यार्ड कार्यालय परिसर, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से आने वाली पटरी सहित चारदीवारी के भीतर संपत्ति विकास क्षेत्र भी शामिल है।
3.	लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन	लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें सड़क पर रैंप/फुटओवर ब्रिज, फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य सड़क और मेट्रो स्टेशन के प्रवेश/निकास द्वार/लिफ्ट के बाहर परिचालन क्षेत्र को छोड़कर, पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो स्टेशन भवन की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित हैं।
4.	निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन	निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें सड़क पर रैंप/ फुटओवर ब्रिज, फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य सड़क और मेट्रो स्टेशन के प्रवेश/निकास द्वार/लिफ्ट के बाहर परिचालन क्षेत्र को छोड़कर, पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो स्टेशन भवन की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित हैं।
5.	प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन	प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य मार्ग और मेट्रो स्टेशन के प्रवेश/निकास द्वार/लिफ्ट के बाहर परिचालन क्षेत्र को छोड़कर, पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो स्टेशन भवन की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर शामिल हैं।

[illegible]

[illegible]

	स्टेशन	छोड़कर, डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरा भूतल क्षेत्र तथा पार्किंग स्थल शामिल है।
14	शंकर विहार मेट्रो स्टेशन	शंकर विहार मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के प्रवेश तथा निकास द्वारों के परिचालन क्षेत्र शामिल है। फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य सड़क को छोड़कर, डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरा भूतल क्षेत्र तथा पार्किंग स्थल शामिल है।

5. कश्मीरी गेट मेट्रो पुलिस स्टेशन

क्र० सं०	मेट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन	विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, मेट्रो पटरी जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के अंत में बफर जोन की ओर आने वाला, चारदीवारी के भीतर शामिल होने वाली पटरी, प्लेटफार्म, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, सम्मिलित क्षेत्र, अंदर तथा बाहर जाने के द्वार, सम्मिलित क्षेत्र, प्लेटफार्म की ओर जाने वाली सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर शामिल हैं। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन की चारदीवारी का भीतरी पार्किंग क्षेत्र तथा मेट्रो भवन के भीतर भूतल क्षेत्र पर पूर्व और पश्चिम की ओर प्रवेश एवं सहायक भवन, चारदीवारी के भीतर का परिचालन क्षेत्र, मेट्रो रेल स्टेशन चारदीवारी के साथ संलग्न संपत्ति विकास क्षेत्र चारदीवारी/बाड़ से घिरे हैं।
2	विधानसभा मेट्रो स्टेशन	विधानसभा मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का भूमिगत क्षेत्र, पटरियां एवं पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी के भीतरी भू-तल क्षेत्र पर पूर्वी और पश्चिमी दिशा के प्रवेश द्वार सहित मेट्रो कार्यालय परिसर, सहायक भवन तथा डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी तथा बाड़ के भीतर पार्किंग क्षेत्र शामिल है।
3	सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन	सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां एवं पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी के भीतरी भू-तल क्षेत्र पर पूर्वी और पश्चिमी दिशा के प्रवेश द्वार सहित मेट्रो कार्यालय परिसर, सहायक भवन तथा डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी तथा बाड़ के भीतर पार्किंग क्षेत्र शामिल है।
4	कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन	भूमिगत कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन (येलो लाइन) का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से लाल किला मेट्रो स्टेशन (लाल किला मेट्रो स्टेशन को छोड़कर) तथा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से तीस हजारी मेट्रो स्टेशन (को छोड़कर) तक की पटरियां, कश्मीरी गेट रिसीविंग सब-स्टेशन तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, कार्यालय परिसर तथा भूतल और भूमिगत सबवे से भूतल के प्रवेश/निकास तक का क्षेत्र शामिल है। मेट्रो भवनों की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र जिसमें जमीन से भूमिगत मेट्रो स्टेशन तक के सभी चार प्रवेश/निकास को कवर करते हुए उत्तरी दिशा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है। शामनाथ मार्ग एवं लाला हरदेव सहाय मार्ग के चौराहे के पश्चिमी दिशा पर स्थित सहायक भवन की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र तथा संपूर्ण क्षेत्र जिसमें डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ का भीतरी पार्किंग क्षेत्र शामिल है। कश्मीरी गेट आई.एस.बी.टी. (रेड लाइन) मेट्रो स्टेशन का क्षेत्र जिसमें स्टेशन के नीचे भवन की उत्तरी दिशा पर स्टेशन भवन वाणिज्यिक परिसर तथा पार्किंग क्षेत्र एवं आई.एस.बी.टी. स्टेशन के बाहरी फुटपाथ को छोड़कर, आस-पास और बाहरी तरफ के फुटपाथों को छोड़कर, बाड़ के भीतर के समीपस्थ तथा आस-पास का परिचालन क्षेत्र शामिल है।
5	चाँदनी चौक मेट्रो स्टेशन	चाँदनी चौक मेट्रो स्टेशन (दिल्ली मैन) का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां और पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, कार्यालय परिसर, मेट्रो भवनों की चारदीवारी/बाड़ का भीतरी भूतल क्षेत्र सहित मेट्रो पार्किंग, सहायक/संबद्ध भवन शामिल है।
6	चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन	चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र तथा पटरियां और पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी का भीतरी भूतल क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर, सहायक/संबद्ध भवन तथा डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ का भीतरी पार्किंग क्षेत्र शामिल है।
7	नई दिल्ली रेलवे	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के

	स्टेशन मेट्रो स्टेशन	बीच का क्षेत्र, पटरियां और पटरियों के बीच का क्षेत्र, नई दिल्ली रिसीविंग सब-स्टेशन, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी का भीतरी भूतल क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर शामिल है। इसमें डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी सहायक/संबद्ध भवन का क्षेत्र सम्मिलित है।
--	----------------------	--

6. रिठाला मेट्रो पुलिस स्टेशन

क्र० सं०	मेट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	रिठाला मेट्रो स्टेशन	रिठाला मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें मेट्रो रेल की पटरी के पश्चिमी दिशा के अन्त तक डीएमआरसी पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन, परिचालन क्षेत्र, स्टेशन भवन के दोनों ओर का प्रवेश/निकास द्वार तथा रिठाला रिसीविंग सब स्टेशन शामिल है। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र जिसमें फुटपाथ, मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे से गुजरने वाली सर्विस रोड को छोड़कर, चारदीवारी व बाड़ सहित पार्किंग स्थल शामिल है।
2	रोहिणी (पश्चिम) मेट्रो स्टेशन	रोहिणी (पश्चिम) मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें स्टेशन भवन पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के दोनों ओर का प्रवेश/निकास द्वार शामिल है। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे से जाने वाली मुख्य सड़क को छोड़कर, पार्किंग क्षेत्र सहित वाणिज्यिक परिसर जिसमें यूनिटि मॉल, सिनेपॉलिस सिनेमा-हॉल शामिल है, जो चारदीवारी/बाड़ से घिरे है।
3	रोहिणी (पूर्व) मेट्रो स्टेशन	रोहिणी (पूर्व) मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें स्टेशन भवन पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के दोनों ओर के प्रवेश/निकास द्वार शामिल हैं। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे से जाने वाली मुख्य सड़क को छोड़कर, चारदीवारी/बाड़ से घिरा पार्किंग स्थल शामिल है।
4	पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन	पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के दोनों ओर के प्रवेश/निकास द्वार शामिल हैं। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ से घिरा पार्किंग स्थल तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र शामिल हैं जो फुटपाथ, सर्विस रोड, मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे से जाने वाली मुख्य सड़क को छोड़कर, डीएमआरसी द्वारा दीवार/ बाड़ से घिरे हैं।
5	कोहाट एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन	कोहाट एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के दोनों ओर के प्रवेश/निकास द्वार शामिल हैं। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे से जाने वाली मुख्य सड़क को छोड़कर, चारदीवारी/बाड़ से घिरा पार्किंग स्थल शामिल है।

7. ओखला विहार मेट्रो पुलिस स्टेशन

क्र० सं०	मेट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	कालकाजी मन्दिर मेट्रो स्टेशन	कालकाजी मन्दिर मेट्रो स्टेशन (दोनों लाइन) का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र और पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, कालकाजी रिसीविंग सब-स्टेशन, मेट्रो की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर शामिल हैं। डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर सहायक/संबद्ध भवन का क्षेत्र सम्मिलित है।
2	गोविन्द पुरी मेट्रो स्टेशन	गोविन्द पुरी मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां एवं पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर शामिल हैं। डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ के भीतर सहायक/संबद्ध भवन का क्षेत्र सम्मिलित है।
3	ओखला मेट्रो स्टेशन	ओखला मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें पार्किंग क्षेत्र तथा चारदीवारी और पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां एवं पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो की चारदीवारी का भीतरी संपत्ति विकास क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर शामिल हैं। डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ के भीतर सहायक/संबद्ध भवन का क्षेत्र सम्मिलित है।

[illegible]

	स्टेशन	क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो कार्यालय परिसर तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित है।
19	चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन	चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो कार्यालय परिसर तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित है।
20	पंचशील पार्क मेट्रो स्टेशन	पंचशील पार्क मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, पंचशील पार्क मेट्रो स्टेशन तथा हौज खास मेट्रो स्टेशन के बीच की पटरी (हौज खास मेट्रो स्टेशन को छोड़कर), प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो का कार्यालय परिसर तथा डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र।

8. शास्त्री पार्क मेट्रो पुलिस स्टेशन

क्र० सं०	मेट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन	शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन तक की पटरियां, (कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर) तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर। आईटी पार्क क्षेत्र जिसमें मेट्रो संपत्ति के सामने की सर्विस लेन (आईटी पार्क से मेट्रो डिपो), डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतरी सहायक/सम्बद्ध भवन शामिल है।
2	शास्त्री पार्क मेट्रो डिपो	मेट्रो डिपो में डीएमआरसी की चारदीवारी तथा बाड़ से घिरा क्षेत्र, मेट्रो पटरी, मेट्रो यार्ड, कार्यालय परिसर, चारदीवारी के भीतर संपत्ति विकास क्षेत्र, शास्त्री पार्क व सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से आने वाली पटरियों सहित क्षेत्र शामिल है।
3	सीलम पुर मेट्रो स्टेशन	सीलम पुर मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का पार्किंग क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, स्टेशन बॉक्स सहित मेट्रो कार्यालय परिसर तथा मेट्रो चारदीवारी के भीतर संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित है। डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतरी सहायक/सम्बद्ध भवनों का क्षेत्र शामिल है।
4	वैलकम मेट्रो स्टेशन	वैलकम मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का पार्किंग क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो चारदीवारी के भीतर स्टेशन बॉक्स सहित मेट्रो कार्यालय परिसर। डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतरी सहायक/सम्बद्ध भवनों का क्षेत्र शामिल है।
5	शाहदरा मेट्रो स्टेशन	स्टेशन के पूर्वी दिशा के लोहे के गेट से शुरू होने वाली रेलवे पटरी जहां मेट्रो पटरी आरंभ होती है, उत्तर-पूर्वी स्टेशन भवन के नीचे शोपिंग कॉम्प्लेक्स पार्श्वनाथ मॉल, डीएमआरसी की चारदीवारी से जी.टी. रोड तक का भीतरी पार्किंग क्षेत्र शामिल है; जिसमें जी.टी. रोड से अनाज मंडी की ओर जाने वाला रास्ता और पार्किंग की पश्चिमी चारदीवारी से सबसे तक तथा सड़क एवं फुटपाथ भी शामिल नहीं है।
6	मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन	मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर शामिल है। चारदीवारी/बाड़ के बाहर फुटपाथ को छोड़कर, डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ का भीतरी पार्किंग क्षेत्र तथा सहायक/संबद्ध भवन जो उत्तरी दिशा में जी. टी. रोड पुल तथा दक्षिण दिशा में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र के समानांतर है।
7	झिलमिल मेट्रो स्टेशन	झिलमिल मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर शामिल है। चारदीवारी/बाड़ के बाहर फुटपाथ को छोड़कर, डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ का भीतरी पार्किंग क्षेत्र तथा सहायक/संबद्ध भवन जो उत्तरी दिशा में जी. टी. रोड तथा दक्षिण दिशा में बी-ब्लॉक झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र के समानांतर है।
8	दिलशाद गार्डन	दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र,

[illegible]

9. नांगलोई मेट्रो पुलिस स्टेशन

क्र० सं०	मेट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन	अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन (दोनों लाईनों) का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के दोनों ओर के प्रवेश/प्रस्थान द्वार सम्मिलित हैं। चारदीवारी/बाड़ सहित डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र, जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड और मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे आने वाला मेन रोड शामिल नहीं है।
2	पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन	पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के दोनों ओर के प्रवेश/प्रस्थान द्वार सम्मिलित हैं। चारदीवारी/बाड़ के साथ पार्किंग स्थलों सहित डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र, जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड और मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे आने वाला मेन रोड शामिल नहीं है।
3	शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन	शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के दोनों ओर के प्रवेश/प्रस्थान द्वार सम्मिलित हैं। चारदीवारी/बाड़ के साथ पार्किंग स्थलों सहित डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र, जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड और मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे आने वाला मेन रोड शामिल नहीं है।

[illegible]

10. नेहरू प्लेस मेट्रो पुलिस स्टेशन

[illegible]

		साथ मेट्रो का कार्यालय परिसर सम्मिलित है। डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर फुटपाथ, सर्विस रोड और मेन रोड को छोड़कर सहायक/संबद्ध भवनों का क्षेत्र शामिल हैं।
10	आश्रम मेट्रो स्टेशन	आश्रम मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें पटरी तथा चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र के साथ मेट्रो का कार्यालय परिसर सम्मिलित है। डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर फुटपाथ, सर्विस रोड और मेन रोड को छोड़कर सहायक/संबद्ध भवनों का क्षेत्र शामिल हैं।
11	हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन	हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें पटरी तथा चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से मयूर विहार फेज-1 मेट्रो स्टेशन तक की पटरियां (मयूर विहार फेज-1 मेट्रो स्टेशन को छोड़कर) तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र के साथ मेट्रो का कार्यालय परिसर सम्मिलित है। डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर फुटपाथ, सर्विस रोड और मेन रोड को छोड़कर सहायक/संबद्ध भवनों का क्षेत्र शामिल हैं।

11. आई.एन.ए मेट्रो पुलिस स्टेशन

क्र० सं०	मेट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	जोर बाग मेट्रो स्टेशन	जोर बाग मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें जोर बाग मेट्रो स्टेशन से लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन तक की पटरी (लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन को छोड़कर), प्लेटफार्म, परिचालन क्षेत्र, स्टेशन भवन के प्रवेश/प्रस्थान द्वार सम्मिलित है। चारदीवारी/बाड़ सहित डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेट्रो स्टेशन के ऊपर से जा रही मुख्य सड़क शामिल नहीं है।
2	आई.एन.ए. मेट्रो स्टेशन	आई.एन.ए. मेट्रो स्टेशन (दोनों लाईनों) का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, आई.एन.ए. रिसीविंग सब-स्टेशन, परिचालन क्षेत्र, स्टेशन भवन के प्रवेश/प्रस्थान द्वार सम्मिलित है। चारदीवारी/बाड़ सहित डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेट्रो स्टेशन के ऊपर से जा रही मुख्य सड़क शामिल नहीं है।
3	एम्स मेट्रो स्टेशन	एम्स मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, परिचालन क्षेत्र, स्टेशन भवन के प्रवेश/प्रस्थान द्वार सम्मिलित है। चारदीवारी/बाड़ सहित डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेट्रो स्टेशन के ऊपर से जा रही मुख्य सड़क शामिल नहीं है।
4	ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन	ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन से हौज़ खास मेट्रो स्टेशन तक की पटरी (हौज़ खास मेट्रो स्टेशन को छोड़कर), प्लेटफार्म, परिचालन क्षेत्र, स्टेशन भवन के प्रवेश/प्रस्थान द्वार सम्मिलित है। चारदीवारी/बाड़ सहित डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेट्रो स्टेशन के ऊपर से जा रही मुख्य सड़क शामिल नहीं है।
5	भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन	भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो का कार्यालय परिसर तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/ बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित है।
6	मोती बाग मेट्रो स्टेशन	मोती बाग मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, मोती बाग मेट्रो स्टेशन से साउथ कैपस मेट्रो स्टेशन तक की पटरी (साउथ कैपस मेट्रो स्टेशन को छोड़कर) सहित पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो कार्यालय परिसर तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित है।
7	सरोजिनी नगर मेट्रो स्टेशन	सरोजिनी नगर मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के दोनों ओर के प्रवेश/प्रस्थान द्वार, चारदीवारी/बाड़ सहित डीएमआरसी से घिरा भूतल क्षेत्र सम्मिलित हैं। जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड और मेन रोड शामिल नहीं है।

[illegible]

12	पालम मेट्रो स्टेशन	पालम मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें पटरी तथा चारदीवारी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, पालम रिसीविंग सब-स्टेशन, मेट्रो कार्यालय परिसर तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र शामिल हैं।
13	सदर बाजार कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन	सदर बाजार कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें पटरी तथा चारदीवारी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो कार्यालय परिसर तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र शामिल हैं।
14	आई जी आई एयरपोर्ट टर्मिनल-I मेट्रो स्टेशन	आई जी आई एयरपोर्ट टर्मिनल-I मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें पटरी तथा चारदीवारी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो कार्यालय परिसर तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र शामिल हैं।
15	नंगली मेट्रो स्टेशन	नंगली मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें मेट्रो पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवन की चारदीवारी का भूतल तथा भीतरी क्षेत्र के साथ मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित है। डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, संबद्ध भवन तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड और मेन रोड शामिल नहीं हैं।
16	नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन	नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें मेट्रो पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, प्रवेश तथा प्रस्थान द्वार, सम्मिलित क्षेत्र तथा प्लेटफार्मों की ओर जाने वाली सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर, सम्मिलित है, इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेन रोड शामिल नहीं हैं।
17	ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन	ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें पार्किंग क्षेत्र, मेट्रो पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, प्रवेश तथा प्रस्थान द्वार, सम्मिलित क्षेत्र तथा प्लेटफार्मों की ओर जाने वाली सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर, सम्मिलित है, इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेन रोड शामिल नहीं हैं।

13. सुप्रीम कोर्ट मेट्रो पुलिस स्टेशन

क्र० सं०	मेट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	बाराखम्बा रोड मेट्रो स्टेशन	बाराखम्बा रोड मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें मेट्रो पटरी, बाराखम्बा रोड मेट्रो स्टेशन से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तक की मेट्रो पटरी (राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को छोड़कर), प्लेटफार्म, मेट्रो कार्यालय परिसर, सम्मिलित क्षेत्र, प्रवेश/प्रस्थान द्वार, सम्मिलित क्षेत्र तथा प्लेटफार्मों की ओर जाने वाली सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर, सम्मिलित है, इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेन रोड तथा मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों/लिफ्ट के बाहर का परिचालन क्षेत्र शामिल नहीं है।
2	मण्डी हाउस मेट्रो स्टेशन	मण्डी हाउस मेट्रो स्टेशन (दोनों ब्लू तथा वायलेट लाइनें) का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें मेट्रो पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो कार्यालय परिसर, प्रवेश/प्रस्थान द्वार, सम्मिलित क्षेत्र तथा प्लेटफार्मों की ओर जाने वाली सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर, सम्मिलित है, इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेन रोड तथा मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों/लिफ्ट के बाहर का परिचालन क्षेत्र शामिल नहीं है।
3	सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन	सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें मेट्रो पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो कार्यालय परिसर, लिफ्ट, मेट्रो पार्किंग, सम्मिलित क्षेत्र तथा प्लेटफार्मों की ओर जाने वाली सीढ़ियां, मेट्रो स्टेशन के भवन का भीतरी भूतल क्षेत्र सम्मिलित है, इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, प्रगति मैदान के गेट नं० 10 की ओर जाने वाले सभी सर्विस रोड तथा आई.टी.ओ. की ओर जाने वाला फूट ओवर ब्रिज/स्काई वाक तथा मेट्रो स्टेशन के प्रवेश/प्रस्थान द्वार/लिफ्ट के बाहर का परिचालन क्षेत्र शामिल नहीं है।
4	इन्द्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन	इन्द्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें मेट्रो पटरी, इन्द्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक की मेट्रो पटरी (यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन को छोड़कर), प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो कार्यालय परिसर, लिफ्ट, मेट्रो पार्किंग, इन्द्रप्रस्थ रिसीविंग सब-स्टेशन, मेट्रो स्टेशन की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र सम्मिलित है, इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेन रोड तथा मेट्रो स्टेशन के प्रवेश/प्रस्थान द्वार/लिफ्ट के बाहर का परिचालन क्षेत्र तथा फूट ओवर ब्रिज शामिल नहीं है।

14. राजीव चौक मेट्रो पुलिस स्टेशन

क्र० सं०	मेट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	राजीव चौक मेट्रो स्टेशन	राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, मेट्रो पटरी, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आर.के. आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन तक की पटरी (आर.के. आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन को छोड़कर) तथा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन तक की पटरी (नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर) तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी के भीतरी भूतल क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित हैं। इसमें डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर सहायक/संबद्ध भवनों का क्षेत्र शामिल है।
2	पटेल चौक मेट्रो स्टेशन	पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी के भीतरी भूतल क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित हैं। इसमें डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर पार्किंग तथा प्लॉट नं०-8 जन्तर मन्तर का क्षेत्र शामिल है।
3	केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन	केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी के भीतरी भूतल क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित हैं। इसमें डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर सहायक/संबद्ध भवनों का क्षेत्र शामिल है।
4	उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन	उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी के भीतरी भूतल क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित हैं। इसमें डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर सहायक/संबद्ध भवनों का क्षेत्र शामिल है।
5	लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन (पूर्ववर्ती नाम रेस कोर्स)	लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो भवनों की चारदीवारी के भीतरी भूतल क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित हैं। इसमें डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर सहायक/संबद्ध भवनों का क्षेत्र शामिल है।

15. आजादपुर मेट्रो पुलिस स्टेशन

क्र० सं०	मेट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	जी.टी.बी नगर मेट्रो स्टेशन	जी.टी.बी नगर मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का भूमिगत क्षेत्र, जी.टी.बी नगर मेट्रो स्टेशन से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तक की पटरियां (विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन को छोड़कर) तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, रिंग रोड के दोनों ओर प्रवेश हेतु मेट्रो भवनों की चारदीवारी के भीतरी भूतल क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित हैं, सहायक भवन तथा डीएमआरसी की चारदीवारी तथा बाड़ का भीतरी क्षेत्र सम्मिलित है, इसमें उत्तर दिशा की ओर रिंग रोड के समानान्तर पार्किंग क्षेत्र शामिल है।
2	माडल टाऊन मेट्रो स्टेशन	माडल टाऊन मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित हैं। इसमें उत्तर की ओर अल्पना सिनेमा मॉडल टाऊन-I तथा दक्षिण की ओर पुलिस थाना मॉडल टाऊन के बीच का डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर सहायक/संबद्ध भवनों का क्षेत्र शामिल है। इसमें चारदीवारी/बाड़ के बाहर पैदल पथ शामिल नहीं है।
3	तिमार पुर (खैबर पास) मेट्रो रेल यार्ड/डिपो	तिमार पुर मेट्रो रेल यार्ड/डिपो जिसमें डीएमआरसी की चारदीवारी तथा बाड़ से घिरा क्षेत्र, कार्यालय परिसर, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से आने वाली मुख्य मेट्रो पटरी तक की भूमिगत मेट्रो पटरी, चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां और पटरियों के बीच का क्षेत्र, संपत्ति विकास क्षेत्र तथा डीएमआरसी की चारदीवारी और बाड़ के भीतर डीएमआरसी का पार्किंग क्षेत्र सम्मिलित है।
4	आजाद पुर मेट्रो स्टेशन	आजाद पुर मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र (दोनों लाईनों), जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां और पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित हैं। इसमें प्रमेशवरी वाला बाग तथा रिंग रोड के बीच का पार्किंग क्षेत्र और उत्तर की ओर रिंग रोड तथा दक्षिण की ओर लाल बाग इलाके के समानान्तर डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर सहायक/संबद्ध भवनों का क्षेत्र शामिल है। इसमें चारदीवारी/बाड़ के बाहर पैदल पथ शामिल नहीं है।
5	शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन	शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो कार्यालय परिसर तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित है।
6	मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन	मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो कार्यालय परिसर तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित है।
7	मुकुंदपुर डिपो	मुकुंदपुर डिपो का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, मुकुंदपुर रिसीविंग सब-स्टेशन, प्लेटफार्म, डिपो की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र सहित डिपो कार्यालय परिसर तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित है।
8	आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन	आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां और पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित हैं। इसमें उत्तर की ओर आदर्श नगर इलाके तथा दक्षिण की ओर भंडोला गांव के बीच डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर सहायक/संबद्ध भवनों का क्षेत्र शामिल है। इसमें चारदीवारी/बाड़ के बाहर पैदल पथ शामिल नहीं है।
9	जंहागीर पुरी मेट्रो स्टेशन	जंहागीर पुरी मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां और पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, जंहागीर पुरी रिसीविंग सब-स्टेशन, मेट्रो की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित हैं। इसमें जी.टी. करनाल रोड के समानान्तर उत्तर की ओर पार्किंग क्षेत्र तथा उत्तर की ओर डीडीए फ्लैट्स जंहागीर पुरी इलाके तथा दक्षिण की ओर राजस्थानी उद्योग नगर के बीच डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर सहायक/संबद्ध भवनों का क्षेत्र शामिल है। इसमें

		चारदीवारी/बाड़ के बाहर पैदल पथ शामिल नहीं है।
10	हैदरपुर/बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन	हैदरपुर मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो कार्यालय परिसर तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित है।
11	रोहिणी सै०-18 मेट्रो स्टेशन	रोहिणी सै०-18 मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच का क्षेत्र, पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र सहित मेट्रो कार्यालय परिसर सम्मिलित है। डीएमआरसी का पार्किंग क्षेत्र तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित है।
12	समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन	समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी और पटरी के बीच का क्षेत्र तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो कार्यालय परिसर तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित है।

16. नेता जी सुभाष प्लेस मेट्रो पुलिस स्टेशन

क्र० सं०	मेट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	नेता जी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन	नेता जी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन (दोनों लाईनों) का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें नेता जी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन से कोहाट एन्चलेव मेट्रो स्टेशन तक की पटरी (कोहाट एन्चलेव मेट्रो स्टेशन को छोड़कर) तथा नेता जी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन से शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन तक की पटरी (शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन को छोड़कर), प्लेटफार्म, स्टेशन भवनों के दोनों ओर के प्रवेश/प्रस्थान द्वार सम्मिलित हैं। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ सहित पार्किंग स्थल, डीएमआरसी द्वारा उपयुक्त विकास हेतु संबद्ध क्षेत्र शामिल है।
2	केशव पुरम मेट्रो स्टेशन	केशव पुरम मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के दोनों ओर के प्रवेश/प्रस्थान द्वार सम्मिलित हैं। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र इसमें चारदीवारी/बाड़ सहित पार्किंग स्थल शामिल है। जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे की ओर से जाने वाली मुख्य सड़क शामिल नहीं है।
3	कैन्हया नगर मेट्रो स्टेशन	कैन्हया नगर मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के दोनों ओर के प्रवेश/प्रस्थान द्वार सम्मिलित हैं। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र इसमें चारदीवारी/बाड़ सहित पार्किंग स्थल शामिल है। जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे की ओर से जाने वाली मुख्य सड़क शामिल नहीं है।
4	इन्द्रलोक मेट्रो स्टेशन	इन्द्रलोक मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें दोनों लाईनों के स्टेशन भवन तथा इन्द्रलोक मेट्रो स्टेशन से अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन तक की पटरी (अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन को छोड़कर), प्लेटफार्म तथा दोनों लाइनों के प्रवेश/प्रस्थान द्वार तथा इनका परिचालन क्षेत्र सम्मिलित हैं। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र इसमें चारदीवारी/बाड़ सहित पार्किंग स्थल शामिल है। जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे की ओर से जाने वाली मुख्य सड़क शामिल नहीं है।
5	शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन	प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन से आने वाली पटरी, शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन, पटरी, प्लेटफार्म, पार्किंग क्षेत्र, परिचालन क्षेत्र, चारदीवारी/बाड़ द्वारा परिबद्ध मेट्रो रेल स्टेशन से संबद्ध तथा अंतर्गत संपत्ति विकास क्षेत्र, प्रवेश/प्रस्थान द्वार सम्मिलित हैं। जिसमें मेट्रो स्टेशन के नीचे की ओर से गुजरने वाली रोड/सर्विस रोड शामिल नहीं है।
6	प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन	भूतल पर प्रताप नगर मेन मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, परिचालन क्षेत्र, चारदीवारी/बाड़ द्वारा परिबद्ध प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन से पृथक संबद्ध संपत्ति विकास क्षेत्र, प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के प्रवेश/प्रस्थान द्वार शामिल हैं। जिसमें सड़क नं०-40 (नजदीक अन्धा मुगल), प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे का क्षेत्र शामिल नहीं है।
7	पुल बंगश मेट्रो स्टेशन	भूतल पर पुल बंगश मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, परिचालन क्षेत्र, चारदीवारी/बाड़ द्वारा परिबद्ध पुल बंगश मेट्रो स्टेशन से पृथक संबद्ध संपत्ति विकास क्षेत्र, पुल बंगश मेट्रो स्टेशन के प्रवेश तथा प्रस्थान द्वार शामिल हैं। जिसमें रोशनारा रोड के समानान्तर दक्षिण तथा पूर्व की तरफ जाने वाला पैदल पथ शामिल नहीं है।

8	तीस हजारी मेट्रो स्टेशन	भूतल पर तीस हजारी मेन मेट्रो स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र, मेट्रो स्टेशन भवन के पीछे उत्तर तथा पूर्व की ओर चारदीवारी का भीतरी पार्किंग क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिसमें रोड के समानान्तर पूर्वी और दक्षिण दिशा की ओर पैदल पथ शामिल नहीं है तथा तीस हजारी मेट्रो स्टेशन के प्रथम तल से तीस हजारी कोर्ट की ओर जाने वाले दोनों रैंप मेट्रो पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होंगे।
9	शकूर पुर मेट्रो स्टेशन	शकूर पुर मेट्रो स्टेशन (दोनों लाइनों) का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के दोनों ओर के प्रवेश/प्रस्थान द्वार सम्मिलित हैं। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ सहित पार्किंग स्थल, डीएमआरसी द्वारा समूचित विकास हेतु संबद्ध क्षेत्र शामिल है।
10	पंजाबी बाग (पश्चिम) मेट्रो स्टेशन	पंजाबी बाग (पश्चिम) मेट्रो स्टेशन (दोनों लाइनों) का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, पंजाबी बाग (पश्चिम) मेट्रो स्टेशन से ई.एस.आई. अस्पताल मेट्रो स्टेशन तक की पटरी, (ई.एस. आई. अस्पताल मेट्रो स्टेशन को छोड़कर), प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के दोनों ओर के प्रवेश/प्रस्थान द्वार सम्मिलित हैं। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूतल क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ सहित पार्किंग स्थल, डीएमआरसी द्वारा समूचित विकास हेतु संबद्ध क्षेत्र शामिल है।

स्थानीय पुलिस का मेट्रो पटरी के ऊपर/नीचे से गुजरने वाले सभी रोड़/सर्विस रोड़, फुटपाथ, जलधाराएं, नाले, बहता पानी तथा ओवर सबवे और मेट्रो पटरी विस्तार के बीच, जहां कहीं भी मौजूद है तथा पटरी के ऊपर/नीचे आने वाले समस्त खुले स्थानों पर क्षेत्राधिकार रहेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
आदेश से और उनके नाम पर,

शैलेश कुमार, उप सचिव (गृह)

HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th May, 2023

F. No. 1/7/2016/HP-I/Estt./506 to 513.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978) read with the clause (s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, and in supersession of notifications of this Government issued vide notification number F. No. 1/07/2016/HP-1/Estt./4903 to 4910 dated the 24th September, 2018 and F. No. 1/07/2016/HP-1/Estt./2118 to 2125 dated the 11th June, 2019 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to direct and declare:-

- That the area of new Metro Stations namely Nangli, Najafgarh and **Dhansa Bus Stand** shall be included in the jurisdiction of Police Station Janakpuri Metro from the date of publication of this notification, as defined in the schedule given below;
- That the area of new Metro Grey Line corridor at Dwarka Metro Station shall be included in the area of Dwarka Metro Station under the jurisdiction of Police Station Janakpuri Metro, from the date of publication of this notification, as defined in the schedule attached;
- That Metro Station Nangloi shall be deleted from the jurisdiction of Metro Police Station Janakpuri after the publication of this notification;
- That the area of Vinod Nagar Depot shall be included in the jurisdiction of Police Station Yamuna Depot Metro, from the date of publication of this notification, as defined in the schedule attached;
- That the name of Metro Station namely Pragati Maidan shall be changed from Pragati Maidan to Supreme Court from the date of publication of this notification, as defined in the in the schedule given below;
- That the name of Metro Police Station namely Pragati Maidan Metro shall be changed from Pragati Maidan Metro to Supreme Court Metro from the date of publication of this notification, as defined in the schedule given below;

The boundaries/revised boundaries/jurisdictions of all the Metro Police Stations shall cover the local area henceforth as specified in the attached Schedule:-

SCHEDULE**Jurisdiction of 16 Metro Police Stations****1. Metro Police Station IGI Airport**

Sl. No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station New Delhi Metro Express	Total area of Metro Station New Delhi Express including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area under ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
2.	Metro Station Shivaji Stadium	Total area of Metro Station Shivaji Stadium including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area under ground and inside the boundary wall of DMRC, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
3.	Metro Station Dhaula Kuan	Total area of Metro Station Dhaula Kuan including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings and Dhaula Kuan Receiving Sub Station. The area inside the boundary wall of DMRC, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
4.	Metro Station Aero City NH-8 (Mahipalpur)	Total area of Metro Station Aero City NH-8 (Mahipalpur) including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area, allied building and ramp of Metro rail on the road including stairs (excluding pavement) and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
5.	Metro Station IGI Airport	Total area of Metro Station IGI Airport including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of DMRC, parking area, allied building, Airport Receiving Sub Station and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
6.	Metro Station Dwarka Sector-21	Total area of Metro Station Dwarka Sector-21 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
7.	Metro Depot Dwarka Sector-21	The Depot including area covered by the boundary wall and fencing by DMRC including Metro track, Metro Yard, office premises, property development areas inside the boundary wall.
8.	Metro Station Dwarka Sector-08	Total area of Metro Station Dwarka Sector-08 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the Metro tracks.
9.	Metro Station Dwarka Sector-09	Total area of Metro Station Dwarka Sector-09 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the Metro tracks.

10.	Metro Station Dwarka Sector-10	Total area of Metro Station Dwarka Sector-10 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the Metro tracks.
11.	Metro Station Dwarka Sector-11	Total area of Metro Station Dwarka Sector-11 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the Metro tracks.
12.	Metro Station Dwarka Sector-12	Total area of Metro Station Dwarka Sector-12 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC. Parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the Metro tracks.
13.	Metro Station Dwarka Sector-13	Total area of Metro Station Dwarka Sector-13 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the Metro tracks.
14.	Metro Station Dwarka Sector-14	Total area of Metro Station Dwarka Sector-14 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC. Proposed building of police post Dwarka Metro, electric substation in between Metro Station Dwarka and Dwarka Sector-14 in front of police post Dwarka Metro excluding the area under the Metro tracks.
15.	Metro Station South Campus	Total area of Metro Station South Campus including track, platforms, Concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, Parking area owned / maintained / under the control of DMRC, ancillary / allied buildings and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC excluding the area under the Metro Tracks.
16.	Metro Station Delhi Cantonment	Total area of Metro Station Delhi Cantonment including track, platforms, Concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, Parking area owned / maintained / under the control of DMRC, ancillary / allied buildings and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC excluding the area under the Metro Tracks.
17.	Metro Station Naraina Vihar	Total area of Metro Station Naraina Vihar including track, platforms, Concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, Parking area owned / maintained / under the control of DMRC, ancillary / allied buildings and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC excluding the area under the Metro Tracks.

18.	Metro Station Mayapuri	Total area of Metro Station Mayapuri including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary / allied buildings and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC excluding the area under the metro Tracks.
-----	------------------------	---

2. Metro Police Station Raja Garden

Sl.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Ramakrishna Ashram Marg	Total area of Metro Station Ramakrishna Ashram Marg including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, Concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro buildings except Punch Kuyian road under Metro station. The area of parking and ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing of DMRC.
2.	Metro Station Jhandewalan	Total area of Metro Station Jhandewalan including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, Concourse, office complex of metro with area on ground inside the boundary wall of Metro building except Link Road under the Metro Station. The area of parking and ancillary/allied buildings inside the boundary wall/ fencing of DMRC.
3.	Metro Station Karol Bagh	Total area of Metro Station Karol Bagh including track, platforms, Concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall / fencing of Metro buildings, ancillary / allied buildings except Pusa Road under the Metro Station building. Parking area inside boundary wall / fencing of DMRC and other property development area of DMRC.
4.	Metro Station Rajendra Place	Total area of metro Station Rajendra place including track, platforms, concourse office complex of metro with area inside the boundary wall of Metro building ancillary / allied buildings except Pusa Road under the Metro Station. Parking area inside boundary wall / fencing of DMRC and other property development area of DMRC.
5.	Metro Station Patel Nagar	Total area of Metro Station Patel Nagar including track, platforms, Concourse, office complex of metro with area inside the boundary wall of Metro building. Property development area and parking area inside the boundary wall DMRC except main road Patel Nagar under the Metro Station. The area inside the boundary wall / fencing of DMRC parking and ancillary / allied buildings.
6.	Metro Station Shadipur	Total area of Metro Station Shadipur including track, platforms, Concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of metro building except main Patel Nagar Road under the Metro Station. The area inside the boundary wall/fencing of DMRC, parking ancillary / allied building and other property development area of DMRC.
7.	Metro Station Kirti Nagar	Total area of Metro Station Kirti Nagar (both line) including track, platforms, Concourse, office complex of metro with area on ground inside the boundary wall of metro building. The area inside the boundary wall/ fencing of DMRC, parking, ancillary / allied buildings and other property development area of DMRC.
8.	Metro Station Moti Nagar	Total area of Metro Station Moti Nagar including track, platforms, concourse, office complex of metro with area on ground inside the boundary wall of metro buildings except main Najafgarh Road under the Metro Station. The area inside the boundary wall / fencing of DMRC, parking, ancillary / allied building and other property development area of DMRC.

9.	Metro Station Ramesh Nagar	Total area of Metro Station Ramesh Nagar including track, platforms, concourse, office complex of metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings except main Najafgarh Road under the Metro Station. The area inside the boundary wall / fencing of DMRC, Parking, ancillary / allied buildings and other property development area of DMRC.
10.	Metro Station Rajouri Garden	Total area of Metro Station Rajouri Garden (both Lines), track from Rajouri Garden Metro Station upto Mayapuri Metro Station (excluding Mayapuri Metro Station), platforms, Concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings except main Najafgarh Road under the Metro Station. The area inside the boundary wall/fencing of DMRC, multi level parking with commercial complex, ancillary /allied buildings and other property development area of DMRC.
11.	Metro Station Tagore Garden	Total area of Metro Station Tagore Garden including track, platforms, Concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings except main Najafgarh Road under the Metro station. The area inside the boundary wall/fencing of DMRC, Parking, ancillary/allied building other property development area of DMRC.
12.	Metro Station Subhash Nagar	Total, area of Metro Station Subhash Nagar including track, track from Subhash Nagar Metro Station upto Tilak Nagar Metro Station (excluding Tilak Nagar Metro Station), Subhash Nagar Receiving Sub Station, platforms, Concourse, office complex of Metro with commercial development area on ground inside the boundary wall of Metro buildings except main Najafgarh road under the Metro Station. The area inside the boundary wall/fencing of DMRC, parking, ancillary / allied buildings and other property development area of DMRC.
13.	Metro Station Sat Guru Ram Singh Marg	Total area of Metro Station Sat Guru Ram Singh Marg including station building, track, track from Sat Guru Ram Singh Marg Metro Station upto Ashoka Park Main Metro Station (excluding Ashoka Park Main Metro Station), Platform, entry/exit gate of both side of station building, ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing, excluding footpath, service road, main road laying under the Metro Station building.
14.	Metro Station ESI Hospital	Total area of Metro Station ESI Hospital including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the metro Tracks.

3. Metro Police Station Yamuna Depot

Sl. No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Yamuna Bank	Total area of Metro Station Yamuna Bank, including track, platforms, concourse, office complex of metro with area on ground and underground inside the boundary wall of Metro Station building, Metro Parking excluding circulating area after entry/exit gate of metro station, footpath, service road, main road.
2.	Metro Depot Yamuna Bank	The depot including area covered by the boundary wall and fencing by DMRC including Metro Track, metro Yard office premises, property development areas inside the boundary wall along with track coming from Yamuna Bank Metro Station excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate of metro station.

3.	Metro Station Laxmi Nagar	Total area of Metro Station Laxmi Nagar, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building excluding ramp/foot over bridge on the road, footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate / lift of metro station.
4.	Metro Station Nirman Vihar	Total area of Metro Station Nirman Vihar, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building excluding ramp/foot over bridge on the road, footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
5.	Metro Station Preet Vihar	Total area of Metro Station Preet Vihar including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
6.	Metro Station Karkardooma	Total area of Metro Station Karkardooma (both lines), including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building, Metro Parking excluding the circulating area after entry/exit gate of shops/eating house situated on the ground floor under the metro station and excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
7.	Metro Station Anand Vihar ISBT	Total area of Metro Station Anand Vihar ISBT (both lines), including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building excluding the foot over bridge connects to Anand Vihar Railway Station and excluding foot over bridge connects to Bus Station Kaushambi Depot (UP) and excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
8.	Metro Station Akshardham	Total area of Metro Station Akshardham, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building, Metro Parking excluding foot over bridge, footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
9.	Metro Station Mayur Vihar Phase-1	Total area of Metro Station Mayur Vihar Phase-1 (both lines), including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building, Metro Parking excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
10.	Metro Station Mayur Vihar Extension	Total area of Metro Station Mayur Vihar Extension, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building, Metro Parking excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
11.	Metro Station New Ashok Nagar	Total area of Metro Station New Ashok Nagar, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
12.	Metro Station IP Extension,	Total area of Metro Station IP Extension, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
13.	Metro Station Mandawali – West Vinod Nagar,	Total area of Metro Station Mandawali – West Vinod Nagar, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building excluding footpath,

		service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
14.	Metro Station East Vinod Nagar – Mayur Vihar -2,	Total area of Metro Station East Vinod Nagar – Mayur Vihar -2, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station..
15.	Metro Station Trilokpuri – Sanjay Lake	Total area of Metro Station Trilokpuri – Sanjay Lake including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
16.	Metro Station Mayur Vihar Pocket - I	Total area of Metro Station Mayur Vihar Pocket - I, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro Station building excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
17.	Metro Depot Vinod Nagar	The depot including area covered by the boundary wall and fencing by DMRC including Metro Track, metro Yard office premises, property development areas inside the boundary wall excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate of metro station.

4. Metro Police Station Ghitorni

Sl. No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Hauz Khas	Total area of Metro Station Hauz Khas (both lines), track, platform, Circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying over the Metro Station.
2.	Metro Station Malviya Nagar	Total area of Metro Station Malviya Nagar, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing for parking lots/property development area, excluding footpath, service road, main road lying over the metro Station.
3.	Metro Station Saket	Total area of Metro Station Saket, Track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, and parking lots, excluding footpath, service road, main road lying over the Metro Station.
4.	Metro Station Qutab Minar	Total area of Metro Station Qutab Minar, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
5.	Metro Station Chhatrapur	Total area of Metro Station Chhatrapur, track, platform, Chhatrapur Receiving Sub Station, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
6.	Metro Station Sultanpur	Total area of Metro Station Sultanpur, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
7.	Metro Station Ghitorni	Total area of Metro Station Ghitorni, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by

		DMRC with boundary wall/fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
8.	Metro Station Arjangarh	Total area of Metro Station Arjangarh, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
9.	Metro Depot Sultanpur	The depot including area covered by boundary wall and fencing by DMRC including metro track, metro Yard, office premises property development areas inside the boundary wall.
10.	Metro Station IIT	Total underground area of Metro Station IIT, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
11.	Metro Station R.K. Puram	Total underground area of Metro Station R.K. Puram, track, platform, R.K. Puram Receiving Sub Station, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
12.	Metro Station Munirka	Total underground area of Metro Station Munirka, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
13.	Metro Station Vasant Vihar	Total underground area of Metro Station Vasant Vihar, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
14.	Metro Station Shankar Vihar	Total area of Metro Station Shankar Vihar, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.

5. Metro Police Station Kashmere Gate

Sl. No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Vishwavidayala	Total underground area of Metro Station Vishwavidayala, metro track, including area between boundary wall and track, coming from buffer zone at the end of the Metro Station Vishwavidayala, track including area between inside boundary wall, platforms, tracks and area between tracks, concourse, entry and exit gates stairs, lifts, escalators leading to concourse, platforms. Parking area inside the boundary wall of Metro Station Vishwavidayala and area on ground inside the building of metro on eastern and western entries and ancillary building, circulating area inside the boundary wall, property development area attached with metro rail station boundary by boundary wall / fencing.
2.	Metro Station Vidhan Sabha	Total underground area of Metro Station Vidhan Sabha including underground area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of metro with area on ground inside the boundary wall of metro building for entries on eastern and western side, ancillary building and parking area inside the boundary wall and fencing by the DMRC.
3.	Metro Station Civil Lines	Total underground area of Metro Station Civil Lines including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of metro which are on ground inside the boundary wall of metro building for entries on eastern and

		western side, ancillary building and parking area inside the boundary wall and fencing by the DMRC.
4.	Metro Station Kashmere Gate	Total area of metro Station Kashmere Gate underground (Yellow Line) including area between boundary wall and track, tracks from Kashmere Gate Metro Station upto Lal Quila Metro Station(excluding Lal Quila Metro Station) & from Kashmere Gate Metro Station upto Tis Hazari Metro Station (excluding), Kashmere Gate Receiving Sub Stations and area between tracks, platforms concourse, office complex and underground subway up to the entry/exit on ground. The area inside the boundary wall of Metro buildings including shopping complex on northern side covering all the four entries/exits from the ground to the underground metro Station. Area inside the boundary wall of ancillary building situated on the western side of the crossing of the Shyamnath Marg and Lal Hardev Sahai marg and entire area including parking area inside the boundary wall / fencing of DMRC. Area of Metro Station Kashmere gate ISBT (Red line) which including station building commercial complex on the northern side of building under the station and parking and circulation area adjoining and around the ISBT Station inside fencing excluding pavements of the outer side.
5.	Metro Station Chandni Chowk	Total underground area of Metro Station Chandni Chowk (Delhi Main) including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms concourse, office complex, parking of Metro with area on ground inside the boundary wall / fencing of Metro building, ancillary/ allied building.
6.	Metro Station Chawri Bazar	Total underground area of Metro Station Chawri Bazar, including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings, ancillary / allied buildings and parking area inside boundary wall / fencing by DMRC.
7.	Metro Station New Delhi Railway Station	Total underground area of Metro Station New Delhi Railway Station, including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, New Delhi Receiving Sub Station, platforms, concourse, office complex of metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area of ancillary / allied building inside the boundary wall of DMRC.

6. Metro Police Station Rithala

Sl.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Rithala	Total area of Metro Station Rithala including DMRC track up to end of Metro Rail track on western side, platform, station building, circulating area, entry/exit gate of both side of station building and Rithala Receiving Sub Station. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall fencing, excluding footpath, service road lying under the Metro Station building.
2.	Metro station Rohini (West)	Total area of Metro Station Rohini (West) including station building track, platform, entry / exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking cum commercial complex including unity mall, cine polis cinema hall with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro station building.
3.	Metro Station Rohini (East)	Total area of Metro Station Rohini (East) including station building track, platform, entry / exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.

4.	Metro Station Pitampura	Total area of Metro Station Pitampura including Station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing and other property development area covered with wall/fencing by DMRC excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
5.	Metro Station Kohat Enclave	Total area of Metro Station Kohat Enclave including Station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall / fencing excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.

7. Metro Police Station Okhla Vihar

Sl.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Kalkaji Mandir	Total area of Metro Station Kalkaji Mandir (both Lines), including area between boundary wall and track and area between tracks, platform, concourse, Kalkaji Receiving Sub Station, office complex of the Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall fencing by DMRC.
2.	Metro Station Govind Puri	Total area of Metro Station Govind Puri including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of the Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary / allied buildings inside the boundary wall fencing by DMRC.
3.	Metro Station Okhla	Total area of Metro Station Okhla including parking area and area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with property development area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
4.	Metro Station Jasola	Total area of Metro Station Jasola (Apollo) including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with property development area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
5.	Metro Station Sarita Vihar	Total area of Metro Station Sarita Vihar including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, Sarita Vihar Receiving Sub Station, concourse, office complex of Metro with property development area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
6.	Metro Station Mohan Estate	Total area of Metro Station Mohan Estate including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with property development area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
7.	Metro Station Tuglakabad	Total area of Metro Station Tuglakabad including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with property development area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
8.	Metro Station Badarpur	Total area of Metro Station Badarpur including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall

		of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
9.	Sarita Vihar Depot	Total area of Depot Sarita Vihar, on ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing, with track and exit and entry gates along with its building premises excluding footpath, service road, main road.
10.	Metro Station Okhla Phase-III	Total area of Metro Station Okhla Phase-III including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
11.	Metro Station Sukhdev Vihar	Total area of Metro Station Sukhdev Vihar including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
12.	Metro Station Jamia Milia Islamia	Total area of Metro Station Jamia Milia Islamia including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
13.	Metro Station Okhla Vihar	Total area of Metro Station Okhla Vihar including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
14.	Metro Station Jasola Vihar Shaheen Bagh	Total area of Metro Station Jasola Vihar Shaheen Bagh including area between boundary wall and track, and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
15.	Metro Depot Kalindi Kunj	Total area of Kalindi Kunj Depot including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, office complex of depot and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
16.	Metro Station Kalindi Kunj	Total area of Kalindi Kunj Metro Station including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC
17.	Metro Station Nehru Enclave	Total underground area of Metro Station Nehru Enclave including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
18.	Metro Station Greater Kailash	Total underground area of Metro Station Greater Kailash including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
19.	Metro Station Chirag Delhi	Total underground area of Metro Station Chirag Delhi including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
20.	Metro Station Panchsheel Park	Total underground area of Metro Station Panchsheel Park including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, track between Metro Station Panchsheel Park and Hauz Khas Metro Station (excluding Hauz Khas Metro Station) platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.

8. Metro Police Station Shastri Park

Sl.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Shastri Park	Total area of Metro Station Shastri Park including parking area between boundary wall and track, tracks from Shastri Park Metro Station upto Kashmere Gate Metro Station (excluding Kashmere Gate Metro Station) and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of IT park including service lane in front of Metro property (IT park to Metro Depot), ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
2.	Metro Depot Shastri Park	The depot including area covered by the boundary wall and fencing by DMRC including Metro track, Metro Yard, office premises property development areas inside the boundary wall along with track coming from Shastri Park and Seelampur Metro Station.
3.	Metro Station Seelampur	Total area of Metro Station Seelampur including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with station box and property development area inside the boundary wall of metro. The area of ancillary / allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
4.	Metro Station Welcome	Total area of Metro Station Welcome including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with station box area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary / allied building inside the boundary wall / fencing by DMRC.
5.	Metro Station Shahdara	The Railway track starting from iron gate of eastern side of the station where the Metro track starts, Station building, shopping complex Parsvnath mall under the station building on North-Eastern side, parking area inside the DMRC wall up to GT road excluding the road outside parking, leading to Anaj mandi road and western boundary wall of parking from GT road up to subway excluding the road and pavement.
6.	Metro Station Mansarovar Park	Total area of Metro Station Mansarovar Park including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of parking and ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by the DMRC parallel to GT Road fly over on northern side and New Friends Colony Industrial area on southern side excluding the pavement outside the boundary wall / fencing.
7.	Metro Station Jhilmil	Total area of Metro Station Jhilmil including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of parking and ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by the DMRC parallel to GT Road on northern side and B-Block Jhilmil industrial area on southern side excluding the pavement outside the boundary wall / fencing.
8.	Metro Station Dilshad Garden	Total area of Metro Station Dilshad Garden including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of Parking and ancillary / allied building inside the boundary wall / fencing by the DMRC parallel to GT Road on northern side and A-block Jhilmil industrial area on southern side excluding the pavement outside the boundary wall on the eastern side of the station will be the limit of the area under the jurisdiction of Metro Police Station.

9.	Metro Station Jafrabad	Total area of Metro Station Jafrabad including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
10.	Metro Station Maujpur	Total area of Metro Station Maujpur including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
11.	Metro Station Gokul Puri	Total area of Metro Station Gokul Puri including area between boundary wall and track, Yamuna Vihar Receiving Sub Station and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
12.	Metro Station East Azad Nagar	Total area of Metro Station East Azad Nagar including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
13.	Metro Station Krishna Nagar	Total area of Metro Station Krishna Nagar including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
14.	Metro Station Karkardooma Court	Total area of Metro Station Karkardooma Court including area between boundary wall and track, tracks from Karkardooma Court Metro Station upto Karkardooma Metro Station (excluding Karkardooma metro station) and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
15.	Metro Station Shiv Vihar	Total area of Metro Station Shiv Vihar including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
16.	Metro Station Johri Enclave	Total area of Metro Station Johri Enclave including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.

9. Metro Police Station Nangloi

Sl.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Ashoka Park Main	Total area of Metro Station Ashoka Park Main (both lines), including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
2.	Metro Station Punjabi Bagh	Total area of Metro Station Punjabi Bagh including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
3.	Metro Station Shivaji Park	Total area of Metro Station Shivaji Park including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under

		the Metro Station building.
4.	Metro Station Madipur	Total area of Metro Station Madipur including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
5.	Metro Station Paschim Vihar (East)	Total area of Metro Station Paschim Vihar (East) including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
6.	Metro Station Paschim Vihar (West)	Total area of Metro Station Paschim Vihar (West) including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
7.	Metro Station Peeragarhi	Total area of Metro Station Peeragarhi including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
8.	Metro Station Udhog Nagar	Total area of Metro Station Udhog Nagar including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
9.	Metro Station Suraj Mal Stadium	Total area of Metro Station Suraj Mal Stadium including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
10.	Metro Station Nangloi	Total area of Metro Station Nangloi including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
11.	Metro Station Nangloi Railway Station	Total area of Metro Station Nangloi Railway Station including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
12.	Metro Station Rajdhani Park	Total area of Metro Station Rajdhani Park including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
13.	Metro Station Mundka	Total area of Metro Station Mundka including station building, platform, Mundka Receiving Sub Station, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
14.	Metro Depot Mundka	The depot including area covered by the boundary wall and fencing by DMRC including Metro track, Metro yard, office premises, property development area inside the boundary wall along with track coming from Mundka Metro Station.

15.	Metro Station Mundka Industrial Area (MIA)	Total area of Metro Station Mundka Industrial Area (MIA) including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
16.	Metro Station Ghevra	Total area of Metro Station Ghevra including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
17.	Metro Station Tikri Kalan	Total area of Metro Station Tikri Kalan including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
18.	Metro Station Tikri Border	Total area of Metro Station Tikri Border including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.

10. Metro Police Station Nehru Place

Sl.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Khan Market	Total area of Metro Station Khan Market including station building, track from Khan Market Metro Station upto Central Secretariat Metro Station (excluding Central Secretariat Metro Station), platform, entry/exit gates of the both side of station building on ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the metro station building.
2.	Metro Station Jawaharlal Nehru Stadium	Total area of Metro Station Jawaharlal Nehru Stadium including station building, track, platform, entry/exit gates of the both side of station building on ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the metro station building.
3.	Metro Station Jang Pura	Total area Metro Station Jang Pura including station building, track, platform, entry/exit gates of the both side of station building on ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the metro station building.
4.	Metro Station Lajpat Nagar	Total area of Metro Station Lajpat Nagar (both lines), including area between boundary wall and track, tracks from Lajpat Nagar Metro Station upto South Extension (excluding South Extension metro station) and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
5.	Metro Station Moolchand	Total area of Metro Station Moolchand including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
6.	Metro Station Kailash Colony	Total area of Metro Station Kailash Colony including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.

7.	Metro Station Nehru Place	Total area of Metro Station Nehru Place including parking area and area between boundary wall and track, tracks from Nehru Place Metro Station upto Kalkaji Mandir Metro Station (excluding Kalkaji Mandir Metro Station) and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
8.	Metro Station South Extension	Total area of Metro Station South Extension including station building, track, platform, entry/exit gates of station building, ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road.
9.	Metro Station Vinobapuri	Total area of Metro Station Vinobapuri including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath, service road, main road.
10.	Metro Station Ashram	Total area of Metro Station Ashram including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath, service road, main road.
11.	Metro Station Hazrat Nizamuddin	Total area of Metro Station Hazrat Nizamuddin including area between boundary wall and track, tracks from Hazrat Nizamuddin Metro Stations upto Mayur Vihar Phase-1 Metro Station (excluding Mayur Vihar Phase – 1 Metro Station) and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath, service road, main road.

11. Metro Police Station INA

Sl. No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Jor Bagh	Total area of Metro Station Jor Bagh, track from Jor Bagh Metro Station upto Lok Kalyan Marg Metro Station (excluding), platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying over the Metro Station.
2.	Metro Station INA	Total area of Metro Station INA (both lines), track platform, INA Receiving Sub Station, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying over the Metro Station.
3.	Metro Station AIIMS	Total area of Metro Station AIIMS, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying over the Metro Station.
4.	Metro Station Green Park	Total area of Metro Station Green Park, track from Green Park Metro Station upto Hauz Khas Metro Station (excluding Hauz Khas Metro Station), platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying over the Metro Station.
5.	Metro Station Bhikaji Cama Place	Total area of Metro Station Bhikaji Cama Place area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.

6.	Metro Station Moti Bagh	Total area of Metro Station Moti Bagh area between boundary wall and track, tracks including track from Moti Bagh Metro Station upto South Campus Metro Station (excluding South Campus Metro Station) and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
7.	Metro Station Sarojini Nagar	Total area of Metro Station Sarojini Nagar including station building, track, platform, entry/exit gates of station building, ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road.

12. Metro Police Station Janakpuri

Sl. No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Tilak Nagar	Total area of Metro Station Tilak Nagar including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
2.	Metro Station Janakpuri (East)	Total area of Metro Station Janakpuri (East) including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
3.	Metro Station Janakpuri (West)	Total area of Metro Station Janakpuri (West) including multilevel parking with commercial complex area between boundary wall and track, and area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
4.	Metro Station Uttam Nagar (East)	Total area of Metro Station Uttam Nagar (East) including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
5.	Metro Station Uttam Nagar (West)	Total area of Metro Station Uttam Nagar (West) including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied building inside the boundary wall/fencing by DMRC.
6.	Metro Station Nawada	Total area of Metro Station Nawada including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
7.	Metro Station Dwarka Mor	Total area of Metro Station Dwarka Mor including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
8.	Metro Station Dwarka	Total area of Metro Station Dwarka (both lines) including parking area between boundary wall and track, tracks from Dwarka Metro Station upto Dwarka Sector-14 Metro Station (excluding Dwarka Sector-14 Metro Station) and area between tracks, Dwarka Receiving Sub

		Station, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
9.	Metro Depot Najafgarh	The DMRC Metro yard and Depot Najafgarh including the area covered by the boundary walls and fencing by DMRC. Office premises, Metro track coming from Metro Station Dwarka, property development area of DMRC inside the boundary wall/fencing by DMRC on south side of Najafgarh road.
10.	Metro Station Dabri Mor	Total area of Metro Station Dabri Mor including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
11.	Metro Station Dashrath Puri	Total area of Metro Station Dashrath Puri including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
12.	Metro Station Palam	Total underground area of Metro Station Palam including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, Palam Receiving Sub Station, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
13.	Metro Station Sadar Bazar Cantonment	Total area of Metro Station Sadar Bazar Cantonment including area between boundary wall and track, and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
14.	Metro Station IGI Airport Terminal-I	Total underground area of Metro Station IGI Airport Terminal-I including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
15.	Metro Station Nangli	Total area of Metro Station Nangli, including metro track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath, service road, main road.
16.	Metro Station Najafgarh	Total underground area of Metro Station Najafgarh including metro track, platforms, concourse, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road.
17.	Metro Station Dhansa Bus Stand	Total underground area of Metro Station Dhansa Bus Stand including parking area, metro track, platforms, concourse, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road.

13. Metro Police Station Supreme Court

Sl. No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Barakhamba Road	Total underground area of Metro Station Barakhamba Road including metro track, metro track from Barakhamba Road Metro Station upto Rajiv Chowk Metro Station (excluding Rajiv Chowk Metro Station) platforms, office complex of Metro, concourse, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road and circulating area after stairs/ lift of metro station.

2.	Metro Station Mandi House	Total underground area of Metro Station Mandi House (both blue and violet line), including metro track, platforms, concourse, office complex of Metro, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road and circulating area after stairs/ lift of metro station.
3.	Metro Station Supreme Court	Total area of Metro Station Supreme Court, including metro track, platforms, concourse, office complex of Metro, lift, metro parking, stairs leading to the concourse and platforms, area on ground inside the building of Metro Station, excluding footpath, main road, all service roads leading to the Gate No. 10 of Pragati Maidan and excluding foot over bridge / Sky Walk connects to ITO and excluding circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
4.	Metro Station Indraprastha	Total area of Metro Station Indraprastha including metro track, metro track from Indraprastha Metro Station upto Yamuna Bank Metro Station (excluding Yamuna Bank Metro Station) platforms, concourse, office complex of Metro, Lift, Metro Parking, Indraprastha Receiving Sub Station, with area inside the boundary wall of Metro Station excluding , footpath, service road, main road, circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station and excluding foot over bridge.
5.	Metro Station Janpath	Total underground area of Metro Station Janpath including metro track, metro track from Janpath Metro Station upto Central Secretariat Metro Station (excluding Central Secretariat Metro Station) concourse, office complex of Metro, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
6.	Metro Station ITO	Total underground area of Metro Station ITO including metro track, platforms, concourse, office complex of Metro, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
7.	Metro Station Delhi Gate	Total area of Metro Station Delhi Gate including metro track, platforms, concourse, office complex of Metro, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
8.	Metro Station Jama Masjid	Total area of Metro Station Jama Masjid including metro track, platforms, concourse, office complex of Metro, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.
9.	Metro Station Lal Quila	Total area of Metro Station Lal Quila including metro track, platforms, concourse, office complex of Metro, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road and circulating area after entry/exit gate/ lift of metro station.

14. Metro Police Station Rajiv Chowk

Sl. No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Rajiv Chowk	Total underground area of Metro Station Rajiv Chowk including area between boundary wall and track, tracks from Rajiv Chowk Metro Station upto R.K. Ashram Marg Metro Station(excluding R.K. Ashram Marg Metro Station) & from Rajiv Chowk Metro Station upto New

		Delhi Metro Station (excluding New Delhi Metro Station) and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall of DMRC.
2.	Metro Station Patel Chowk	Total underground area of Metro Station Patel Chowk, including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area of parking and Plot No. 8 Jantar Mantar inside the boundary wall of DMRC.
3.	Metro Station Central Secretariat	Total underground area of Metro Station Central Secretariat including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall of DMRC.
4.	Metro Station Udhog Bhawan	Total underground area of Metro Station Udhog Bhawan including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall of DMRC.
5.	Metro Station Lok Kalyan Marg (earlier Race Course)	Total underground area of Metro Station Lok Kalyan Marg including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall of DMRC.

15. Metro Police Station Azadpur

Sl.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station GTB Nagar	Total underground area of Metro Station GTB Nagar including underground area between boundary wall and track, tracks from GTB Nagar Metro Station upto Vishwavidyalaya Metro Station (excluding Vishwavidyalaya Metro Station) and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings for entries on both side of Ring Road, ancillary building and area inside the boundary wall and fencing by the DMRC. The area of parking on northern side parallel to Ring Road.
2.	Metro Station Model Town	Total area of Metro Station Model Town including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by the DMRC between the Alpana Cinemea Model Town-I, on northern side and Police Station Model Town on southern side excluding the pavement outside the boundary wall/fencing.
3.	Metro Yard/Depot Timarpur (Khyber Pass)	The DMRC Metro Yard and Depot Timarpur including the area covered by the boundary wall and fencing by DMRC, office premises, underground Metro track up to the main Metro track coming from Metro Station Vishwavidhyalaya including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, property development area, parking area of DMRC inside the boundary wall and fencing by DMRC.
4.	Metro Station Azadpur	Total area of Metro Station Azadpur (both lines), including area between boundary wall and track, and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of parking between Ring Road and Parmeshwari

		Wala Bagh and ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by the DMRC parallel to Ring Road on northern side and Lal Bagh locality on southern side excluding the pavement outside the boundary wall/fencing.
5.	Metro Station Shalimar Bagh	Total area of Metro Station Shalimar Bagh including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
6.	Metro Station Majlis Park	Total area of Metro Station Majlis Park including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
7.	Mukundpur Depot Station	Total area of Mukundpur Depot including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, Mukundpur Receiving Sub Station, platforms, office complex of Depot with area inside the boundary wall of Depot and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
8.	Metro Station Adarsh Nagar	Total area of Metro Station Adarsh Nagar including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by the DMRC between the locality Adarsh Nagar on northern side and village Bhadola on southern side excluding the pavement outside the boundary wall/fencing.
9.	Metro Station Jahangir Puri	Total area of Metro Station Jahangir Puri including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, Jahangir Puri Receiving Sub Station, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of parking on northern side parallel to GTK road and ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by the DMRC between the locality DDA flats Jahangir Puri on northern side and Rajasthani Udhyog Nagar on southern excluding the pavement outside the boundary wall/fencing.
10.	Metro Station Haiderpur/Badli Mor	Total area of Metro Station Haiderpur including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
11.	Metro Station Rohini Sector-18	Total area of Metro Station Rohini Sector-18 including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. Parking area of DMRC and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
12.	Metro Station Samaypur Badli	Total area of Metro Station Samaypur Badli including area between boundary wall and track, and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.

16. Metro Police Station Netaji Subhash Place

Sl.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1.	Metro Station Netaji Subhash Place	Total area of Metro Station Netaji Subhash Place (both lines) including station building, tracks from Netaji Subhash Place Metro Station upto Kohat Enclave Metro Station(excluding Kohat Enclave Metro Station) & from Netaji Subhash Place Metro Station upto , Shalimar Bagh Metro Station, (excluding Shalimar Bagh Metro Station), platform,

		entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, area attached for proper development by DMRC.
2.	Metro Station Keshav Puram	Total area of Metro Station Keshav Puram including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
3.	Metro Station Kanhaiya Nagar	Total area of Metro Station Kanhaiya Nagar including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
4.	Metro Station Inder Lok	Total area of Metro Station Inder Lok including station building of both line and track from Inder Lok Metro Station upto Ashoka Park Main Metro Station (excluding Ashoka Park Main Metro Station) platform and entry/exit gate of both line and its circulating area. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
5.	Metro Station Shastri Nagar	The DMRC track coming from Metro Station Pratap Nagar, Metro Station Shastri Nagar, track, platforms, parking area, circulating area, property development area attached and under Metro rail Station bounded by boundary wall/fencing, entry and exit gate excluding the road/service road passing under the Metro Station.
6.	Metro Station Pratap Nagar	Total area under the main Metro Station Pratap Nagar at ground floor, parking area, circulating area, property development area attached as under Metro Station Pratap Nagar bounded by the boundary wall/fencing, entry and exit gate of Metro Station Pratap Nagar excluding area of road number 40 (near Andha Mugal), beneath Metro Station Pratap Nagar.
7.	Metro Station Pul Bangash	Total area of the main Metro Station Pul Bangash at ground floor, parking area, circulating area, property development area attached as under Metro Station Pul Bangash bounded by the boundary wall/fencing, entry and exit gate of Metro Station Pul Bangash excluding pavement on south and east side parallel to the Roshanara Road.
8.	Metro Station Tis Hazari	Total area under the main Metro Station Tis Hazari at ground floor, parking area inside the boundary wall on north and east behind station building excluding pavement on eastern and southern side parallel to the road and the two ramps leading to Tis Hazari Court from first floor of Tis Hazari Metro Station will be under the jurisdiction of Metro Police Station.
9.	Metro Station Shakur Pur	Total area of Metro Station Shakur Pur (both lines) including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, area attached for proper development by DMRC.
10.	Metro Station Punjabi Bagh (West)	Total area of Metro Station Punjabi Bagh (West) (both lines) including station building, track, track from Punjabi Bagh West Metro Station upto ESI Hospital Metro Station (excluding) platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, area attached for proper development by DMRC.

Local Police shall have the jurisdiction over all the road/service, road, footpath, streams, nala, flowing water, and over subway, passing over/under the Metro Track and all open space fallingp over/under the track and between the spans bearing the metro track where ever it exist.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SHALES KUMAR, Dy. Secy. (Home)